



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 कार्तिक 1936 (श0)

(सं0 पटना 944) पटना, बुधवार, 19 नवम्बर 2014

मुख्य अभियंता-2 पटना
ग्रामीण कार्य विभाग
(हार्डिंग रोड बैरक सं0-2 पटना)

आदेश

3 नवम्बर 2014

सं0 2646—जल संधान विभाग बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी0 दिनांक 04.06.02, पत्रांक-1337 दिनांक 21.03.02, पत्रांक-1117 दिनांक 7.5.05 एवं पत्रांक-2360 दिनांक 24.12.08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया का पत्रांक-2014 दिनांक 21.10.2013 एवं पत्रांक-1057 दिनांक 17.06.14 द्वारा प्राप्त मो0 सैयद इमरान आलम पिता-स्व0 अब्दुल हनान, भूतपूर्व सर्वे खलासी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी का प्राप्त कागजात (आवेदन पत्र, परिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र, अनियोजन प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, आचरण प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं शपथ पत्रों) के जाँच के आलोक में वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला स्थापना शाखा-सह-सचिव, जिला अनुकम्पा समिति गया का पत्रांक-1136 दिनांक 12.06.013 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर चतुर्थ वगीय पद पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा प्राप्त के आलोक में मो0 सैयद इमरान आलम, ग्रा0+पो0, भदासी, थाना+जिला-अरवल को अनुकम्पा के आधार पर वर्ग-4 (चार) के पद पर ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज में रिक्त पद के विरुद्ध अनुसेवक के पद पर (वेतनमान 5200-20200) रुपये एवं ग्रेड पे-1800/-रुपये में सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ते तथा अन्य अनुमान्य भत्तों सहित नियुक्ति की जाती है तथा इन्हें प्रशिक्षण अनिवार्य है, वे अपना योगदान ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज में वर्ग चार के रिक्त पद के विरुद्ध अनुसेवक के पद पर पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में योगदान दे देंगे अन्यथा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

2. स्व0 अब्दुल हनान भूतपूर्व सर्वे खलासी, के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व मो0 सैयद इमरान आलम पर होगा। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरुद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। उसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

3. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी।

4. नियुक्ति पद पर योगदान देते समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना होगा।

5. अगर मो0 सैयद इमरान आलम की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रणीत कर दिया जायेगा।
6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, प्रमाण-पत्र स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों की मूल रूप में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र संस्था/बोर्ड से सत्यापित करा लिया गया है। अन्य कागजात जाँच करने के पश्चात् ही मो0 सैयद इमरान आलम के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।
7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
8. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति होने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।
9. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेने और न देने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से,
ई0 अच्छे लाल राम,
मुख्य अभियंता-2
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 944-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>